

समाचार विज्ञप्ति

दिनांक: ०९.०७.२०१५

"जैन मैट्रीमोनियल गैट-टू-गैदर" "Jain Matrimonial Get-to-gather"

आगामी २२ अगस्त २०१५ को पुणे के द ओ होटल मे जैन समाज के उच्च शिक्षित युवक युवतियों के लिये "जैन मैट्रीमोनियल गैट-टू-गैदर" का एक दिवसीय आयोजन भारतीय जैन संघटना द्वारा किया जा रहा है। इस नवसंकल्पित "जैन मैट्रीमोनियल गैट-टू-गैदर" मे प्रोफेशनल गेजुएट, सामान्य पोस्ट गेजुएट एवं इससे अधिक शिक्षित युवक युवतियाँ ही सहभागी हो सकते हैं।

हाल ही मे भारतीय जैन संघटना के संस्थापक शांतिलालजी मुथ्था ने जैन समाज के उच्च शिक्षित युवक युवतियों के जिवनसाथी के चयन कि प्रक्रिया मे व्यापक बदलाव प्रस्तुत किये थे जिसे समाज स्वीकारने लगा है। इसमें अभिभावक अपने अपने बेटे बेटी को अपने ही समाज मे जीवन साथी के चयन के पहल कि छूट देते है तथा स्वयं केवल सलाहकार कि भूमिका निभाते है।

वर्तमान समय को देखते हुए रिश्ते आजीवन टिके यह अत्याधीक महत्वपूर्ण हो गया है और इसके लिये युवक-युवतियों मे (compatibility) आपसी तालमेल, वैचारिक सामंजस्य, पसंद नापसंद आदी सर्वोपरि है। जो केवल प्रत्याशी हि आपस मे देख व समझ सकते है। अभिभावक तो परिवार कि प्रष्ठभूमी, आर्थिक संपन्नता, समाज मे रुतबा तथा प्रत्याशी कि शिक्षा आदी को प्राथमिकता देते है।

इस नवसंकल्पित "जैन मैट्रीमोनियल गैट-टू-गैदर" मे केवल और केवल प्रत्याशीयो को ही प्रवेश देने कि योजना है। देशभर से आये हुऐ उच्च शिक्षित युवक युवतियाँ आपस मे मेल मुलाकात करेंगे, परिचय करेंगे, तथा एक दुसरे को जानने व समझने के लिये समय व्यतीत करेंगे। भारतीय जैन संघटना द्वारा इस अवसर पर दिनभर मे विभिन्न ऐसी छोटी छोटी प्रतियोगिताए आयोजित करने कि योजना है जिसमें ये सभी प्रत्याशी भाग लेंगे और रुची व अरुची, ज्ञान व समझ, भविष्य के प्रति आशाएँ व आकांक्षाएँ, सोचने समझने कि क्षमता, व्यक्तिगत विचारधारा आदी उजागर हो सकेंगे। जिससे सम्मिलित हर प्रत्याशी को अपने योग्य जीवनसाथी के लिये कम से कम चार पाँच प्रत्याशी को सुचिबद्ध कर सकेंगे। तथा इस "जैन मैट्रीमोनियल गैट-टू-गैदर" के पश्चात अपने घर जाकर सुचिबद्ध प्रत्याशीयो के बारे मे अपने माता पिता व परिवारजनों से सलाह मशविरा कर विवाह संबंधित बात आगे बढ़ा सकेंगे।

"जैन मैट्रीमोनियल गैट-टू-गैदर" मे भाग लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन <http://bjsmm.bjsapps.com> पर कर सकते है। आवेदन कि अंतिम तिथि १९ अगस्त २०१५ है।

अधिक जानकारी हेतु भारतीय जैन संघटना के पुणे मुख्य कार्यालय मे सौ. सविता सुतार ०२०-४१२८००१२ व शैलेश जैन [09425089627](tel:09425089627) से संपर्क कर सकते है।

- प्रफुल्ल पारख

सम्मानित संपादक,

कृपया अपने स्थानीय समाचार पत्र में उपरोक्त जानकारी का प्रचार करे, यह नम्र विनती.

आपका स्नेहांकित



प्रफुल्ल पारख

राष्ट्रीय अध्यक्ष

भारतीय जैन संघटना